



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313]

नई दिल्ली शनिवार, अक्टूबर 1, 1977/आश्विन 9, 1899

No. 313]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1977/ASVINA 9, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paglog is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st October 1977

G.S.R 628(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 333-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the said notification, for the provisos, the following shall be substituted, namely:—

'Explanation—In this notification, "finished leather of goat, sheep and bovine animals and of their young ones" means the leather which satisfies the standard specified for such finished leather by the Indian Standards Institution in IS 8170—1977, for the time being in force'

[No 210/F No 356/1/77-Cus I]

M JAYARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

!(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1977

सं० का० नि० 628(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 333-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन और करनी है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, परन्तु के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

‘संशोधन — इस अधिसूचना में “ककड़ियों, भेड़ों और गोजातीय पशु और उनके बच्चों के तैयार चर्म” में ऐसा तैयार चर्म अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा तत्समय प्रदत्त भा० मा० 8170--1977 में विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार हो।’

[सं० 210 का० सं० 356/1/77-सी० शु० I]

एम० जयरामन, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977